

भारतकोकिंगकोललिमिटेड
'एक मिनीरत्नकंपनी'
(कोल इण्डियालिमिटेडका एक अंग)
जनसम्पर्कविभाग
कोयलाभवन, कोयलानगर
धनबाद- 826005 (झारखण्ड)
दूरभाष/फैक्स: 0326-2230202
वेबसाईट: www.bccl.gov.in
ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com
सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED
'A Mini Ratna Company'
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Public Relation Department
KoylaBhawan, Koyla Nagar
Dhanbad- 826005 (Jharkhand).
Phone/Fax: 0326-2230202
website: www.bccl.gov.in
email: bcclprodhanbad@gmail.com
CIN : U10101JH1972GOI000918
दिनांक: 18.02.2017

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड की राजधानी रांची में मोमेंटम झारखण्ड के तहत दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्ससमिट (Global Investors Summit) का आयोजन दिनांक 16 एवं 17 फ़रवरी 2017 को रांची के खेलगांव काम्प्लेक्स में किया गया. इस अवसर पर सैकड़ों कंपनियों ने अपना स्टाल लगा कर झारखण्ड में करोड़ों रुपये निवेश करने के लिए MOU का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना झारखण्ड में मिलेगी, ऐसा इन कंपनियों का मानना है. इसी क्रम में कोल इंडिया की बीसीसीएल, सीएमपीडीआईएल, ईसीएल तथा सीसीएल ने भी अपने अपने स्टाल लगाकर कंपनी की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया. बीसीसीएल के स्टाल में कंपनी के चेयरमैन श्री एस भट्टाचार्य, श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल एवं बीसीसीएल, श्री आर आर मिश्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डब्लूसीएल तथा ईसीएलके अलावा अनेकों निदेशक तथा उच्च अधिकारी आये एवं सभी स्टालों को देख कर अधिकारियोंका उत्साहवर्धन किया. बीसीसीएलद्वारा अपने स्टाल में दो बिजली-चालित मॉडल का प्रदर्शन किया था, जिनमें से एक अंडरग्राउंड माइंस से कोयला निकासी तथा दूसरी खुली खदानों से कोयला निकासी को प्रदर्शित किया गया था. बीसीसीएल के भव्य स्टाल को आगंतुकोंने काफी सराहा तथा कोयला निकासीतकनीक को देख-कर मंत्र-मुग्ध हो गए. इस अवसर पर सम्पूर्ण रांची शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गयाथा. उपरोक्त आयोजन में बीसीसीएल की तरफ से विभागाध्यक्ष(प्रशासन) श्री एस. एन. सिन्हा, उप महाप्रबंधक(जन संपर्क) श्री आर आर प्रसाद, श्री हरिश पाल, सहायक प्रबंधक(पर्यावरण), शुश्री ममता खंडेलवाल, सहायक प्रबंधक(पर्यावरण), श्री अजय चोखानी, सहायक प्रबंधक(खनन), बस्ताकोला क्षेत्र, श्री अभिषेक शर्मा, सहायक प्रबंधक(खनन), बस्ताकोला क्षेत्र तथा अन्य उपस्थितथे.

उप महाप्रबंधक(जन संपर्क)



